

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
मृत्यु मामले में कम्पोजिट दावा प्रपत्र

www.epfindia.gov.in

मोबाइल नं.

Mobile No.

Composite Claim Form in Death Cases
प्रपत्र -20 (भविष्य निधि भुगतान)/ प्रपत्र 10-डी (पेंशन)/प्रपत्र -5आईएफ (ईडीएलआई)
[Form-20 (PF Payment)/Form-10-D (Pension)/ Form - 5 IF (EDLI)]

1	(जो लागू हो, उस पर निशान लगाएं) Tick whichever is/are applicable	(i) भविष्य निधि/ Provident Fund ()	(ii) पेंशन/ Pension () पेंशन दावा का प्रकार/Type of Pension claim:	(iii) बीमा (ईडीएलआई) Insurance EDLI] ()					
2	मृतक सदस्य का नाम (बड़े शब्दों में): Name of the deceased member (in CAPITAL letters)								
3	(a) पिता का नाम / Father's Name :	a)							
	(b) पति/पत्नी का नाम/ Spouse's Name :	b)							
4	मृतक सदस्य की वैवाहिक स्थिति / Marital status of deceased member								
5	a) मृतक सदस्य का आधार नंबर (यदि उपलब्ध हो) Aadhar Number of the deceased member (if available) b) यू.ए.न. / Universal Account Number (UAN) c) भविष्य निधि खाता संख्या (यदि यू.ए.न. उपलब्ध नहीं है) / PF Account Number (in case UAN not available)								
6	सेवा छोड़ने की तिथि/ Date of Leaving service								
7	a) Whether Scheme Certificate has been issued (Yes/No) क्या स्कीम प्रमाणपत्र जारी किया गया है (हां/नहीं) b) If Yes, Number of Scheme Certificate यदि हां, स्कीम प्रमाणपत्र की संख्या c) Scheme Certificate issuing office स्कीम प्रमाणपत्र जारी करने वाले कार्यालय का नाम व पता								
8	गैर अंशदायी सेवा की अवधि (वर्ष/माह/दिन) / Period of Non-Contributory service (Year/Month/Days) – (To be filled by the employer)								
9	सदस्य की मृत्यु की तिथि/ Date of death of the member								
10	क्या सदस्य की मृत्यु सेवाकाल के दौरान हुई थी (हां/नहीं)/ Whether the member had died while in service (Yes / No)								
भविष्य निधि पेंशन तथा बीमा (ईडीएलआई) हेतु दावाकर्ता का विवरण / CLAIMANT'S DETAILS FOR PROVIDENT FUND, PENSION AND INSURANCE (EDLI)									
दावाकर्ता अल्पवयस्क /नामिति /कानूनी उत्तराधिकारी/ वर्तमान परिवार के सदस्य का विवरण जिनके द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया है / *Particulars of the claimant/minor/nominee(s)/legal heir(s)/surviving family member on whose behalf the claim is submitted									
11	क्र.सं. S.N.	नाम/ Name	पिता/Father's / पति-पत्नी का नाम/ Spouse's Name	आधार नंबर/ Aadhar Number	लिंग Gender	जन्म तिथि Date of Birth	वैवाहिक स्थिति Marital Status	संबंध Relationship with सदस्य के साथ Member	अभिभावक Guardian
	i								
	ii								
	iii								
	iv								
	v								
* In case of more than five family members, the details of family members may be furnished in a separate sheet, duly attested by the employer.									
भविष्य निधि तथा ईडीएलआई (बीमा) के भुगतान हेतु बैंक खाते का विवरण Bank Account details for payment of PF & EDLI:									
12	भुगतान हेतु बैंक खाते का विवरण Bank Account details for payment	Claimant – I दावाकर्ता - I	Claimant –II दावाकर्ता - II	Claimant –III दावाकर्ता - III					
	नाम Name								
	बचत बैंक खाता संख्या Saving Bank Account No.								
	बैंक का नाम व पता Name & address of the Bank								
	आई एफ एस कोड IFS Code of Bank								
पेंशन हेतु बैंक खाता विवरण / BANK ACCOUNT DETAILS FOR PENSION									
13	भुगतान हेतु बैंक खाते का विवरण Bank Account details for payment	Claimant – I दावाकर्ता - I	Claimant –II दावाकर्ता - II	Claimant –III दावाकर्ता - III	Claimant – IV दावाकर्ता - IV				
	नाम Name								
	बचत बैंक खाता संख्या Saving Bank Account No.								
	बैंक का नाम व पता Name & address of the Bank								
	आई एफ एस कोड IFS Code of Bank								
14	दावाकर्ता का पत्र व्यवहार का पता Full Postal address of claimant								
पिन/ Pin.....									

- यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही है

- Certified that the particulars are true to the best of my knowledge.

दावाकर्ता का हस्ताक्षर

Claimant's signature

नाम Name:

नियोक्ता का हस्ताक्षर

Employer's Signature

नियोक्ता का पदनाम तथा मुहर

Designation & Seal of Employer

संलग्नक/Enclosures

- i) मृत्यु प्रमाणपत्र/ Death Certificate
- ii) सभी दावाकर्ताओं का संयुक्त फोटो / Joint photograph of all the claimants
- iii) दावा करने वाले बच्चों के जन्म का प्रमाणपत्र / Date of Birth certificate of children claiming pension
- iv) योजना प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) Scheme Certificate (if applicable)
- v) बैंक खाते के सत्यापन हेतु एक रद्द चैक /पासबुक के पहले पेज की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि/ For verification of bank accounts, a copy of cancelled cheque or attested copy of first page of bank Pass Book.